



प्रेस नोट

## UP ATS द्वारा मियामी एअरपोर्ट पर हमले की धमकी देने वाले जालौन के युवक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही

दिनांक : 03 नवम्बर ,2018

UP ATS को एक सिस्टर एजेन्सी से यह इनपुट मिला कि एक पुरुष अमेरिका के मियामी एअरपोर्ट पर कॉल कर के AK47 और ग्रेनेड से हमला करने की धमकी दे रहा है। उसके द्वारा कई बार ऐसे कॉल किए गए जिसे गंभीरता से लिया जाना ज़रूरी था।

प्राप्त IP address के आधार पर कार्य करते हुए इस व्यक्ति को लोकेट किया गया और रोक कर पूछताछ की गई तो निम्न तथ्य पाए गए :-

- एक 18 वर्षीय लड़का जालौन में इस स्थान पर मिला जिससे पूछताछ की गयी और कंप्यूटर व फोन चेक किए गए तो पाया गया कि धमकियाँ देने की बात सत्य है. आरोपी ने अपना जुर्म पूरी तरह स्वीकार किया।
- आरोपी की उम्र 18 वर्ष 3 माह है. यद्यपि यह वयस्क है इसके भविष्य में सुधार की सम्भावना को देखते हुए इसका नाम जारी नहीं किया जा रहा है।
- आरोपी ने बताया कि उसने पिता से पैसे ले कर 1000 US डॉलर के bitcoins खरीदे व उनके दाम बढ़ने से खुश होता रहा. इसी बीच उसकी चैट किसी व्यक्ति से हुई जिसने उसे ज़्यादा मुनाफे का लालच दिया और सारे bitcoins (USD 3,000 के बराबर) हड़प लिए. इसकी सूचना उसने घर पर या थाने पर नहीं दी लेकिन FBI को छदम नाम से कॉल कर व ई-मेल द्वारा दी. FBI से अपेक्षित सहयोग न मिलने पर इसने योजना बनाई और मियामी एअरपोर्ट, USA कॉल करके धमकी दी।
- इसने कहा मैं AK47, ग्रेनेड, सुसाइड बेल्ट ले कर आऊंगा और सब को मार दूंगा, FBI से कहो मुझसे बात करे. इसने यह भी कहा कि मैं body armor (बुलेट प्रूफ जैकेट) पहन कर आऊंगा. कॉल करने के लिए इसने VoIP (इन्टरनेट) कॉल का प्रयोग किया।
- FBI ने आरोपी से फिर बात की लेकिन यह बार-बार 2 अक्टूबर से ले कर 31 अक्टूबर तक लगातार मियामी एअरपोर्ट कॉल करता रहा।
- सहयोगी संगठनों द्वारा UP ATS से मदद मांगी गयी तो साइबर क्षमताओं का प्रयोग करते हुए कुछ ही देर में आरोपी को ट्रैक कर लिया गया और पूछताछ व कंप्यूटर-फोन जब्त किए गए तो पूरी बात स्पष्ट हो गयी और आरोपी ने पूरा जुर्म भी स्वीकार कर लिया. इसके द्वारा एक नकली आधार कार्ड भी बनाया गया जिसे FBI को अपनी नकली पहचान बताने के लिए प्रयोग किया गया. ई-मेल अकाउंट बनाने के लिए भी नकली नाम का प्रयोग किया गया. नकली आधार कार्ड भी बरामद हो गया।
- आरोपी के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है और सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है. धाराएं ऐसी हैं जिनमें गिरफ्तारी की नियमत: आवश्यकता नहीं है अतः गिरफ्तारी न करते हुए चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी।

यह प्रकरण तमाम चिंताएं जागृत करने वाला है. छोटे से नगर में रहने वाला एक लड़का क्या कर रहा है उसके माता-पिता को पता ही नहीं। उसे रु 70,000 पिता से मिल गए bitcoin खरीदने के लिए जिन्हें उसने डुबो दिया और अमेरिका के एअरपोर्ट पर हमला करने की धमकी दे डाली।

उत्तर प्रदेश पुलिस नागरिकों से अनुरोध करती है कि **सुरक्षित इन्टरनेट व्यवहार** के लिए सजग रहे. आपके बच्चे क्या कर रहे हैं इसका ध्यान रखें।

### कैसे ?

- बच्चों को अकेले में कंप्यूटर-स्मार्ट फोन प्रयोग न करने दे।
- screen को छुपा कर प्रयोग न करने दें।
- सोशल मीडिया पर किसी अजनबी से दोस्ती न करें, यह सिखाएं।
- ई-कॉमर्स, बैंक transaction स्वयं करे, बच्चों को न दे।
- यदि कोई गलती हो जाए तो उन्हें सिखाएं कि ईमानदारी से आपको बताए।

